



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 पौष 1935 (श0)

(सं0 पटना 87)

पटना, शुक्रवार, 17 जनवरी 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना

19 अक्टूबर 2013

सं0 1316—कबीर पंथी मठ, ग्राम—नवतन टोले बलुआड़, पो0+थाना—नवतन, जिला—सिवान पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—3968 है।

मठ पोषक क्षेत्र के लोगों द्वारा पर्षद् में आवेदन देकर यह सूचित किया गया कि श्री हंसनाथ दास मठ पर कब्जा कर न्यास की जमीन बेच रहे हैं, एवं सम्पत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके इस कृत्य में तीन भाईयों एवं भाई के पुत्रों द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। उक्त आरोप के आलोक में कारण पृच्छा की नोटिस पर्षद् द्वारा दी गयी, जिसके जवाब में इन लोगों ने मठ सम्पत्ति को व्यक्तिगत सम्पत्ति होने का दावा किया। तत्पश्चात् पर्षद् द्वारा अधिनियम की धारा—28 (2) (प) के तहत विभिन्न तिथियों पर सुनवाई किया गया। सुनवाई के पश्चात् दिनांक 03.08.2012 को इस कबीर पंथी मठ एवं इससे संबंधित सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास सम्पत्ति होने का निर्णय दिया गया।

उपर्युक्त परिस्थितियों में इस न्यास की सुव्यवस्था एवं सम्यक संचालन हेतु न्यास समिति गठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अंचलाधिकारी नवतन से न्यास समिति के सदस्यों का नाम माँगा गया। अंचलाधिकारी नवतन ने पत्रांक—17 दिनांक 01.02.13 एवं पत्रांक 216 दिनांक 17.08.13 के माध्यम से न्यास समिति के गठन हेतु सदस्यों का नाम पदनाम सहित भेजा है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उप—विधि सं0—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए कबीर पंथी मठ, ग्राम—नवतन टोले बलुआड़, पो0+थाना—नवतन, जिला—सिवान की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है, तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “कबीर पंथी मठ, ग्राम—नवतन टोले बलुआड़, न्यास समिति होगी” न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “कबीर पंथी मठ, ग्राम—नवतन टोले बलुआड़, न्यास समिति होगी” जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा—पाठ एवं साधु—सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।
12. इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 25.10.2013 से पाँच वर्षों का होगा। एक वर्ष के बाद इसकी कार्यों की समीक्षा की जायेगी।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1)	श्री तपन चौधरी पे0 स्व0 सनारसी चौधरी	—	अध्यक्ष
(2)	श्री रामचन्द्र पाठक पे0 स्व0 हरिबंश प्रसाद	—	उपाध्यक्ष
(3)	श्री अजय कुशवाहा पे0 श्री झगरू भगत	—	सचिव
(4)	श्री रामजी प्रसाद पे0 स्व0 सखीचन्द्र प्रसाद	—	कोषाध्यक्ष
(5)	श्री बिनोद कुमार राय पे0 स्व0 विन्हाचल राय	—	सदस्य
(6)	श्री कपीलदेव साह पे0 स्व0 झखारी साह	—	सदस्य
(7)	श्री झगरू भगत पे0 स्व0 भोला भगत	—	सदस्य
(8)	श्री हरिहर यादव पे0 स्व0 बदरी यादव	—	सदस्य
(9)	श्री राम प्रवेश चौधरी पे0 श्री देव राजीत चौधरी	—	सदस्य
(10)	श्री शारदा ओझा पे0 स्व0 रामचन्द्र ओझा	—	सदस्य
(11)	श्री रामदेव मांझी पे0 स्व0 शिवदेनी मांझी	—	सदस्य

सभी ग्राम+पो0—नौतन, टोला, बलुआड़, थाना+अंचल—नौतन, जिला—सीवान।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 87-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>